

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 163]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 24 अप्रैल 2019—वैशाख 4, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल दिनांक 24 अप्रैल 2019

फा.क्र. 2549-2019-इक्कीस-ब(दो).- राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रदेश के 07 जिलों (भिण्ड, पन्ना, रीवा, सीधी, होशंगाबाद, विदिशा एवं राजगढ़) के कलेक्टरों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा प्रेषित संलग्न सूची के अनुसार अधिकारियों को सेक्टर मजिस्ट्रेट/जोनल अधिकारी के रूप में लोकसभा निर्वाचन 2019 का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है, और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा अदेशानुसार,
संतोष प्रसाद शुक्ल, अतिरिक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, (निर्वाचन) जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

क्रमांक-निर्वा.-2019-म.द.ग.-311

भिण्ड, दिनांक 12 अप्रैल 2019

लोकसभा निर्वाचन 2019

विशेष कार्यपालक दण्डालधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने बाबत अतिरिक्त प्रस्ताव

जिले का नाम : भिण्ड

| स.क्र. | अधिकारी का नाम | पद नाम | कार्यालय का नाम | सेवा/सर्वग का नाम | क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डालधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है |
|--------|----------------------------|----------------------------|---|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | अनिल कुमार आठिया | सहायक यंत्री | लोक निर्माण विभाग मोहद | लोक निर्माण वि० | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 2 | श्री अरविन्द कुमार तिवारी | उपयंत्री | लोक निर्माण विभाग भिण्ड | लोक निर्माण वि० | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 3 | श्री राकेश चौबे | उपयंत्री | लोक निर्माण विभाग भिण्ड | लोक निर्माण वि० | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 4 | श्री पंकज तिवारी | उपयंत्री | लोक निर्माण विभाग भिण्ड | लोक निर्माण वि० | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 5 | श्री जी.एस. भदौरिया | उपयंत्री | लोक निर्माण विभाग भिण्ड | लोक निर्माण वि० | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 6 | आर.के. त्रिपाठी | वरिष्ठ कृषि वि.अधि. | कृषि विभाग भिण्ड | कृषि विभाग | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 7 | अनिल शर्मा | वरिष्ठ कृषि वि.अधि. | कृषि विभाग भिण्ड | कृषि विभाग | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 8 | व्ही.के. सोनी | वरिष्ठ कृषि वि.अधि. | कृषि विभाग भिण्ड | कृषि विभाग | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 9 | राजेश कुमार त्रिपाठी | वरिष्ठ कृषि वि.अधि. | कृषि विभाग भिण्ड | कृषि विभाग | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 10 | नरेश सिंह अटल | वरिष्ठ कृषि वि.अधि. | कृषि विभाग भिण्ड | कृषि विभाग | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 11 | रामरतन दोहरें | भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी | कार्या. सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी लहार | कृषि विभाग | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 12 | सुरेशबाबू | भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी | कार्या. सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी लहार | कृषि विभाग | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 13 | श्री योगेन्द्र सिंह कुशवाह | वरिष्ठ कृषि वि.अधि. | कृषि विभाग लहार | कृषि विभाग | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 14 | श्री राकेश कुमार शर्मा | वरिष्ठ कृषि वि.अधि. | कृषि विभाग लहार | कृषि विभाग | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 15 | श्री अवधेश सिंह कुशवाह | कृषि वि.अधि. | कृषि विभाग लहार | कृषि विभाग | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 16 | श्री साकेत बिहारी जादौन | कृषि वि.अधि. | कृषि विभाग लहार | कृषि विभाग | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 17 | श्री सुरेश सिंह तोमर | वरिष्ठ कृषि वि.अधि. | कृषि विभाग भिण्ड | कृषि विभाग | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 18 | श्री रमेश सिंह भदौरिया | वरिष्ठ कृषि वि.अधि. | कृषि विभाग भिण्ड | कृषि विभाग | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 19 | श्री संजीव कुमार चतुर्वेदी | वरिष्ठ कृषि वि.अधि. | कृषि विभाग भिण्ड | कृषि विभाग | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 20 | श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय | कृषि वि.अधि. | कृषि विभाग भिण्ड | कृषि विभाग | सम्पूर्ण जिले के लिए |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------|
| 21 | व्ही.के. शर्मा | ए.डी.ओ. | जनपद पंचायत रौन | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 22 | प्रशांत गोस्वामी | ब्लॉक समन्वयक | जनपद पंचायत रौन | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 23 | नरेश मौर्य | ब्लॉक समन्वयक | जनपद पंचायत रौन | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 24 | आर.डी. गोयल | ए.डी.ओ. | जनपद पंचायत रौन | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 25 | विद्याराम शाक्य | विकास विस्तार अधिकारी | जनपद पंचायत भिण्ड | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 26 | सुनीलबाबू जैन | ए.डी.ओ. | जनपद पंचायत भिण्ड | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 27 | भारत सिंह बड़ैया | ए.डी.ओ. | जनपद पंचायत भिण्ड | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 28 | मेवाराम विमल | ए.डी.ओ. | जनपद पंचायत भिण्ड | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 29 | वीरिन्द्र सिंह निगम | ए.डी.ओ. | जनपद पंचायत भिण्ड | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 30 | विनोद सिंह भदौरिया | ब्लॉक समन्वयक | जनपद पंचायत भिण्ड | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 31 | शैलेश सिंह कुशवाह | ब्लॉक समन्वयक | जनपद पंचायत भिण्ड | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 32 | अतीक उर रहमान | ब्लॉक समन्वयक | जनपद पंचायत भिण्ड | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 33 | सुनीश शाक्य | वाटर सेट इंजीनियर | जनपद पंचायत भिण्ड | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 34 | श्री अखिलेश कुमार गुप्ता | महाप्रबंधक | म.प्र.ग्रामीण सडक प्राधि.-1 | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 35 | श्री अजय प्रताप सिंह तोमर | उपयंत्री | म.प्र.ग्रामीण सडक प्राधि.-1 | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 36 | श्री आकाश शर्मा | उपयंत्री | म.प्र.ग्रामीण सडक प्राधि.-1 | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 37 | श्री राजेश उपाध्याय | उपयंत्री | जनपद पंचायत गोहद | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 38 | श्री मोहन लाल शुक्ला | ए.डी.ई.ओ. | जनपद पंचायत गोहद | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 39 | श्री मुकेश कुमार चतुर्वेदी | ए.डी.ई.ओ. | जनपद पंचायत गोहद | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 40 | श्री अरविन्द कुमार तिवारी | ए.डी.ई.ओ. | जनपद पंचायत गोहद | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 41 | श्री रामनिवास | पी.सी.ओ. | जनपद पंचायत गोहद | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 42 | श्री नंदकिशोर गोयल | पी.सी.ओ. | जनपद पंचायत गोहद | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 43 | श्री सुरेश कुमार शर्मा | ए.डी.ई.ओ. | जनपद पंचायत गोहद | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 44 | श्री नवीन कुमार श्रीवास्तव | पी.सी.ओ. | जनपद पंचायत गोहद | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 45 | श्री आलोक सुरोठिया | ब्लॉक समन्वयक | जनपद पंचायत गोहद | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 46 | श्री राजेन्द्र श्रीवास्तव | अतिरिक्त कार्यपालन अधिकारी मनरेगा | जनपद पंचायत लहार | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------|
| 47 | श्री बरिन्द्र जाटव | ब्लॉक समन्वयक | जनपद पंचायत लहार | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 48 | श्री योगेन्द्र सिंह गुर्जर | ब्लॉक समन्वयक | जनपद पंचायत लहार | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 49 | श्री नीरेन्द्र प्रताप सिंह राजपूत | ब्लॉक समन्वयक | जनपद पंचायत लहार | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 50 | श्री रामप्रसाद गोरसिया | विकासखण्ड अधिकारी | जनपद पंचायत लहार | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 51 | श्री प्रदीप खरे | पी.सी.ओ. | जनपद पंचायत लहार | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 52 | श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा | महाप्रबंधक | म.प्र.ग्रामीण सडक प्राधि.-2 | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 53 | श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव | सहायक प्रबंधक | म.प्र.ग्रामीण सडक प्राधि.-2 | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 54 | श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव | सहायक प्रबंधक | म.प्र.ग्रामीण सडक प्राधि.-2 | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 55 | श्री विपिन कुमार श्रीवास्तव | ए.डी.ई.ओ. | जनपद पंचायत मेहगांव | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 56 | श्री आर.सी. कांकर | ए.डी.ई.ओ. | जनपद पंचायत मेहगांव | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 57 | श्री व्ही.एस. पारस | ए.डी.ई.ओ. | जनपद पंचायत मेहगांव | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 58 | श्री शिवराम सिंह | पी.सी.ओ. | जनपद पंचायत मेहगांव | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 59 | श्री नरेश सिंह | पी.सी.ओ. | जनपद पंचायत मेहगांव | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 60 | श्री रामदास सिंह पावक | पी.सी.ओ. | जनपद पंचायत मेहगांव | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 61 | श्री राधा मोहन शर्मा | पी.सी.ओ. | जनपद पंचायत मेहगांव | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 62 | श्री रामशंकर सिंह कुशवाह | पी.सी.ओ. | जनपद पंचायत मेहगांव | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 63 | श्री सतीश आर्य | पी.सी.ओ. | जनपद पंचायत मेहगांव | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 64 | श्री जबर सिंह | पी.सी.ओ. | जनपद पंचायत मेहगांव | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 65 | श्री कैलाश राजे | पी.सी.ओ. | जनपद पंचायत मेहगांव | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 66 | श्री श्याम सुन्दर शर्मा | ब्लॉक समन्वयक | जनपद पंचायत मेहगांव | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 67 | श्री उमा शंकर शर्मा | पी.सी.ओ. | जनपद पंचायत मेहगांव | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 68 | श्री चन्द्रप्रकाश दुबे | पी.सी.ओ. | जनपद पंचायत अटेर | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 69 | श्री आकाश सिंह तोमर | समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी | जनपद पंचायत अटेर | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 70 | श्री ब्रजेश सिंह परमार | ब्लॉक समन्वयक | जनपद पंचायत अटेर | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 71 | श्री रमेश लाल शर्मा | सहायक यंत्री | ग्रा.यां.से. मेहगांव | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 72 | श्री कालीचरण बघेल | सहायक यंत्री | ग्रा.यां.से. अटेर | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|
| 73 | श्री पंजाब कुमार माहौर | उपयंत्री | ग्रा.यां.से. भिण्ड | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 74 | श्री शिवचरण यादव | उपयंत्री | ग्रा.यां.से. मेंहगांव | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 75 | श्री सुरेश बाबू शर्मा | उपयंत्री | लोकस्वास्थ्य यांत्रिकी गोहद | लो.स्वा.यां.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 76 | श्री रवि गुप्ता | सहायक यंत्री | लोकस्वास्थ्य यांत्रिकी लहार | लो.स्वा.यां.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 77 | श्री महीपत सिंह मगरिया | सहायक यंत्री | लो.स्वा.यां. विभाग खण्ड भिण्ड | लो.स्वा.यां. वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 78 | श्री सुरेन्द्र सिंह कुशवाह | उपयंत्री | नगर परिषद अकोडा | शहरी कल्याण | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 79 | श्री अनिल वर्मा | उपयंत्री | नगर परिषद गोहद | शहरी कल्याण | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 80 | श्री विजय कोली | सहायक यंत्री | नगर परिषद गोहद | शहरी कल्याण | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 81 | श्री पवन कुमार गर्ग | उपयंत्री | नगर परिषद गोहद | शहरी कल्याण | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 82 | श्री मनीष कुमार विश्वकर्मा | उपयंत्री | नगर परिषद गोरमी | शहरी कल्याण | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 83 | श्री जगोन्द्र सिंह राजावत | सहायक यंत्री | नगर परिषद भिण्ड | शहरी कल्याण | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 84 | श्री राजेश कौशल | उपयंत्री | नगर परिषद भिण्ड | शहरी कल्याण | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 85 | श्री अदिनाथ सिंह | उपयंत्री | नगर परिषद भिण्ड | शहरी कल्याण | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 86 | श्री देवेन्द्र गजाम | उपयंत्री | नगर परिषद भिण्ड | शहरी कल्याण | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 87 | श्री एश्वर्य गोयल | उपयंत्री | नगर परिषद लहार | शहरी कल्याण | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 88 | श्री अभिषेक जैन | सहायक प्रबंधक | जिला विपणन कार्यालय | विपणन विभाग | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 89 | श्री संजय खरे | उपयंत्री | ग्रामीण यांत्रिकी सेवा भिण्ड | ग्रा.वि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 90 | श्री रामकुमार शर्मा | प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी | जनपद पंचायत अटेर | पंचायत विभाग | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 91 | श्री ओ.पी. सिंह कौरव | मुख्य कार्यपालन अधिकारी | जनपद पंचायत भिण्ड | पंचायत विभाग | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 92 | श्री नवल किशोर पाठक | मुख्य कार्यपालन अधिकारी | जनपद पंचायत गोहद | पंचायत विभाग | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 93 | श्री केदार सिंह | सहा. वि.वि. अधिकारी | जनपद पंचायत मेंहगांव | पंचायत विभाग | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 94 | श्री प्रशांत सिंह | उपयंत्री | नगर परिषद मेंहगांव | शहरी कल्याण | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 95 | श्री आर.एन.राजपूत | उपयंत्री | लो.नि.वि. सेतु संभाग भिण्ड | लो.नि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 96 | श्री राजीव निगम | उपयंत्री | लो.नि.वि. सेतु संभाग भिण्ड | लो.नि.वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 97 | श्री रामदास अफले | सहायक यंत्री | जनपद पंचायत भिण्ड | पंचायत विभाग | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 98 | श्री आशीष मिश्रा | समग्र अधिकारी | जनपद पंचायत मेंहगांव | पंचायत विभाग | सम्पूर्ण जिले के लिए |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-----------------------|------------------|--------------------------------|-------------|----------------------|
| 99 | श्री जे.एस. गुर्जर | उपयंत्री | जलसंसाधन सभाग भिण्ड | जलसंसाधन | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 100 | श्री आर.के. शर्मा | उपयंत्री | जलसंसाधन सभाग गोंहद | जलसंसाधन | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 101 | श्री ओ.पी. सिघल | प्रभारी एस.डी.ओ. | जलसंसाधन सभाग गोंहद | जलसंसाधन | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 102 | श्री डी.एन.एस. राठौर | प्रबंधक | म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि. भिण्ड | विद्युत वि. | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 103 | श्री मिजाजी लाल शर्मा | ए.व्ही.एफ.ओ. | पशुपालन विभाग रोड | पशुपालन | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 104 | श्री जय नारायण नागर | उप-महाप्रबंधक | म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि. भिण्ड | ऊर्जा विभाग | सम्पूर्ण जिले के लिए |

कार्यालय, कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला पन्ना, मध्यप्रदेश

क्रमांक-2002-निर्वाचन-2019

पन्ना, दिनांक 18 अप्रैल 2019

| क्रमांक | अधिकारी का नाम | पदनाम | कार्यालय का नाम | सेवा संवर्ग का नाम | क्षेत्र |
|---------|------------------------|----------------------------|--|--------------------|-----------------|
| 1 | श्री एस0 के0 जैन | कार्यपालन यंत्री | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी पन्ना | द्वितीय | संपूर्ण जिला |
| 2 | श्री अमित गुप्ता | जिला विपणन अधिकारी | जिला विपणन संघ पन्ना | द्वितीय | संपूर्ण जिला |
| 3 | श्री एस0 के0 जैन | सहायक यंत्री | प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना पन्ना | द्वितीय | संपूर्ण जिला |
| 4 | श्री ओ0 पी0 आस्थाना | मुख्य कार्यपालन अधिकारी | जनपद पंचायत गुनौर | द्वितीय | संपूर्ण जिला |
| 5 | श्री बृजभूषण चौबे | उपयंत्री | जल संसाधन पवई | तृतीय | संपूर्ण जिला |

कृपया उपरोक्त अधिकारियों को कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियों प्रदान करने का कष्ट करें।

कार्यालय, कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला रीवा, मध्यप्रदेश

क्रमांक-1475-15-निर्वा.-ES-2019

रीवा, दिनांक 13 अप्रैल 2019

लोकसभा निर्वाचन 2019

विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने बाबत प्रस्ताव

जिले का नाम. रीवा मध्य प्रदेश

| क्र. | अधिकारियों का नाम | पद नाम | कार्यालय का नाम | सेवा/संवर्ग का नाम | क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है |
|------|----------------------------------|----------------------------|---|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | श्री रामकृष्ण वर्मा | अनुभाग अधिकारी | अ.प्र. सिंह विरय. रीवा | | संपूर्ण जिले के लिए |
| 2 | श्री ओम प्रकाश ताम्रकार | अनुभाग अधिकारी | अ.प्र. सिंह विरय. रीवा | | संपूर्ण जिले के लिए |
| 3 | डॉ. सी.एम. तिवारी | | अ.प्र. सिंह विरय. रीवा | | संपूर्ण जिले के लिए |
| 4 | श्री रामनवल सिंह | आचार्य | अ.प्र. सिंह विरय. रीवा | | संपूर्ण जिले के लिए |
| 5 | श्री शिवसौरभ सिंह | सहायक यंत्री | प्रा.या.सेवा क्र-1 रीवा | | संपूर्ण जिले के लिए |
| 6 | श्री राम दयाल पाण्डेय | सहायक यंत्री | प्रा.या.सेवा क्र-1 रीवा | | संपूर्ण जिले के लिए |
| 7 | श्री राजेश कुमार द्विवेदी | संयुक्त संचालक | कौशल विकास क्षेत्रीय कार्यालय बोदाबाग रीवा | | संपूर्ण जिले के लिए |
| 8 | श्री शहनबाज खान | सहायक प्रबंधक | म.प्र. ग्रामीण सड़क विभाग प्राधिकरण रीवा | | संपूर्ण जिले के लिए |
| 9 | श्री मुनिमाधव मिश्रा | सहायक प्रबंधक | म.प्र. ग्रामीण सड़क विभाग प्राधिकरण रीवा | | संपूर्ण जिले के लिए |
| 10 | श्री आर.डी. अहिरवार | कार्यपालन यंत्री | क्योटी नहर संभाग रीवा | | संपूर्ण जिले के लिए |
| 11 | श्री अयोध्या सिंह | कार्यपालन यंत्री | अद्योगिक केन्द्र विकास निगम रीवा | | संपूर्ण जिले के लिए |
| 12 | श्री सिद्धार्थ सिंह गौड़ | सहायक यंत्री | अद्योगिक केन्द्र विकास निगम रीवा | | संपूर्ण जिले के लिए |
| 13 | श्री एन.के. शुक्ला | सहायक प्रबंधक | अद्योगिक केन्द्र विकास निगम रीवा | | संपूर्ण जिले के लिए |
| 14 | श्री एस.एल. त्रिपाठी | सहायक यंत्री | नगर पालिक निगम रीवा | | संपूर्ण जिले के लिए |
| 15 | श्री राजेश सिंह | सहायक यंत्री | नगर पालिक निगम रीवा | | संपूर्ण जिले के लिए |
| 16 | सुश्री नीलम मिश्रा | सहायक यंत्री | नईगढ़ी सूख दबाव सिंचाई परियोजना रीवा | | संपूर्ण जिले के लिए |
| 17 | सुश्री एकता गौतम | सहायक यंत्री | नईगढ़ी सूख दबाव सिंचाई परियोजना रीवा | | संपूर्ण जिले के लिए |
| 18 | डॉ. हरिदास गुप्ता | | मॉडल साइंस कॉलेज रीवा | | संपूर्ण जिले के लिए |
| 19 | डॉ. कमलेश सिंह | प्राध्यापक | मॉडल साइंस कॉलेज रीवा | | संपूर्ण जिले के लिए |
| 20 | श्रीमती भारती श्रीवास्तव | | जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी रीवा | | संपूर्ण जिले के लिए |
| 21 | श्रीमती सिद्धा मिश्रा | सहायक यंत्री | मुख्य अभियंता गंगा कछार रीवा | | संपूर्ण जिले के लिए |
| 22 | श्री योकुल प्रताप सिंह | वरिष्ठ पंजीयक | पंजीयन कार्यालय रीवा | | संपूर्ण जिले के लिए |
| 23 | डॉ. गिरिराज गोयल | सहायक प्राध्यापक | कृषि महाविद्यालय रीवा | | संपूर्ण जिले के लिए |
| 24 | डॉ. जीतेन्द्र सिंह रजोरिया | सहायक प्राध्यापक | कृषि महाविद्यालय रीवा | | संपूर्ण जिले के लिए |
| 25 | डॉ. प्रदीप कुमार सिंह | सहायक प्राध्यापक | कृषि महाविद्यालय रीवा | | संपूर्ण जिले के लिए |
| 26 | डॉ. स्वतंत्र कुमार सिंह | सहायक प्राध्यापक | कृषि महाविद्यालय रीवा | | संपूर्ण जिले के लिए |
| 27 | श्री केवल सिंह बघेल | वैज्ञानिक | कृषि विज्ञान केन्द्र कृषि महाविद्यालय रीवा | | संपूर्ण जिले के लिए |
| 28 | श्री अमित वर्मा | लेखा अधिकारी | कार्यालय मुख्य अभियंता लो.नि.वि. रीवा | | संपूर्ण जिले के लिए |
| 29 | श्री देवेन्द्र कुमार द्विवेदी | वरिष्ठ लेखा अधिकारी | संभागीय परियोजना लो.नि.वि. पी.आई.यू. रीवा | | संपूर्ण जिले के लिए |
| 30 | श्री देवेश दत्त पाण्डेय | प्रबंधक | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रीवा | | संपूर्ण जिले के लिए |
| 31 | श्री संतोष कुमार गौतम | सांख्यिकीय अधिकारी | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रीवा | | संपूर्ण जिले के लिए |
| 32 | श्री रमेश रजक | सहायक संचालक | महिला एवं बाल विकास विभाग रीवा | | संपूर्ण जिले के लिए |
| 33 | श्री नरेन्द्र कुमार मिश्रा | अनुविभागीय अधिकारी | वन विभाग मऊगंज रीवा | | संपूर्ण जिले के लिए |
| 34 | श्रीमती गरिमा शुक्ला | असिस्टेंट | कमर्सियल टैक्स आफिसर रीवा | | संपूर्ण जिले के लिए |
| 35 | श्री पिपूष तिवारी | असिस्टेंट | कमर्सियल टैक्स आफिसर रीवा | | संपूर्ण जिले के लिए |
| 36 | श्री पुष्पेन्द्र कुमार शुक्ला | सहायक संचालक | क्षेत्रीय संयुक्त संचालक पेंशन रीवा | | संपूर्ण जिले के लिए |
| 37 | सुश्री शिखा मिश्रा | सहायक यंत्री | कार्यपालन यंत्री लाइट मशीनरी एवं विद्युत बां.संभाग रीवा | | संपूर्ण जिले के लिए |
| 38 | श्री आ.पी. दुबे | कार्यपालन यंत्री | म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण केन्द्र रीवा | | संपूर्ण जिले के लिए |
| 39 | श्री अरुणेंद्र कुमार अग्निहोत्री | एस.डी.ओ. | म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण केन्द्र रीवा | | संपूर्ण जिले के लिए |
| 40 | श्री शिवशरणधर द्विवेदी | प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी | त्योथर नहर संभाग सिरमौर रीवा | | संपूर्ण जिले के लिए |
| 41 | श्री शिवप्रसाद पाण्डेय | प्राध्यापक | शा. टी.आर.एस. महाविद्यालय रीवा | | संपूर्ण जिले के लिए |
| 42 | श्री शेषमणि शुक्ला | प्राध्यापक | न्यू साइंस कॉलेज रीवा | | संपूर्ण जिले के लिए |

कार्यालय, कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला सीधी, मध्यप्रदेश

क्रमांक-1099-निर्वाचन-2019

सीधी, दिनांक 18 अप्रैल 2019

| विधानसभा क्षेत्र 076 - चुरहट | | | | |
|------------------------------|----------------|---|---|---------------|
| क्र | जोन क्र. व नाम | अधिकारी का नाम व पदनाम | बदले गए सेक्टर आफिसर का नाम व पदनाम | बदलने का कारण |
| 1 | 08 झांझ | श्री एस. पी. पटेल कार्यपालन यंत्री जल संसाधन सीधी | श्री आर. के. सिंह सहायक यंत्री म.प.पूर्व क्ष. वि.वि. कम्पनी लिमिटेड | स्थानान्तरण |
| 2 | | श्री जय सिंह, निदेशक, जन शिक्षण संस्थान सीधी | श्री कान्त शुक्ला मधु चिकित्सा विस्तार अधिकारी रामपुर नैकिन जिला सीधी | शिकायत |
| 3 | 14 चंदरेह | श्री यशवत सिंह यादव, सहायक यंत्री जल संसाधन क्रमांक 1 | श्री जय सिंह, निदेशक, जन शिक्षण संस्थान जिला सीधी | सविदा |
| 4. | 17 बरौ | श्री अनिषेक सिंह, जिला पंजीयक, जिला सीधी | श्री शिवानन्द शुक्ला परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास, जिला सीधी | शिकायत |
| 5 | 24 धुम्मा | श्री आर. के. साहू, सहायक यंत्री, कृषि अभियांत्रिकी सीधी | श्री अवधेश सिंह जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास सीधी | नोडल अधि. |

| | | | | |
|-----------------------------------|------------|---|--|-------------------|
| 6 | पटपरा | श्री शंभूनाथ कोल, सहायक यंत्री, जल संसाधन क्रमांक 1 | डॉ. रजनीश द्विवेदी, पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी, उप सं पशु चि. सेवाएं | शिकायत |
| 7 | कोल्हडीह | डॉ. सुरेन्द्र सिंह चौहान, प्राध्यापक, कन्या महाविद्यालय सीधी | श्री आर. के. सिंह कार्यपालन यंत्री महान लोवर जिला सीधी | स्थानान्तरण |
| विधानसभा क्षेत्र 077- सीधी | | | | |
| 1 | बढौरा | श्री आर. सी. पटेल, कार्यपालन अभियंता, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.ति. | श्री आर. पी. मिश्रा, कार्यपालन अभियंता, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि. सीधी | स्थानान्तरण |
| 2 | नौडिया | कुमारी स्तुति गौतम, सहायक यंत्री, लोक निर्माण विभाग सीधी | श्री अमर सिंह परिहार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीधी | नि. अन्य कार्य |
| 3 | सीधी शहर 1 | डॉ. अम्बीश तिवारी, प्राध्यापक, शा. संजय गाँधी स्मृति महा. सीधी | डॉ. ए.पी. सिंह प्राध्यापक, शासकीय कन्या महाविद्यालय सीधी | प्रभारी प्राचार्य |
| 4 | सीधी शहर 3 | श्रीमती अल्का सिंह, कृषि वैज्ञानिक सीधी | डॉ. अमित आनन्द सोनी, पशु चि. एवं सहा. शल्यज्ञ उप सं. पशु चि.सेवाएं | 82 घोहनी |
| 5 | | श्री एस.के.गार्गव, जिला योजना अधिकारी | श्रीमती अल्का सिंह, कृषि वैज्ञानिक सीधी | एम.सी.एस.सी. |
| 6 | जोगीपुर | डॉ. सत्यसौंदी, पशु चिकित्सा अधिकारी, उपसं. पशु चि. सेवाएं | श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा, बीईओ सीधी | शिकायत |
| 7 | गाँधीग्राम | श्री अमित मरावी, व्याख्याता, पॉलीटेक्निक कालेज सीधी | श्री चूडामणि साकेत जिला आयुष अधिकारी | SST टीम |
| विधानसभा 078- सिहावल | | | | |
| 1 | पहाडी | श्री राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी, सहा. संचा. महिला एवं बाल विकास | श्रीमती दीप्ती वनवासी, सहायक आयुक्त सहकारिता विभाग सीधी | नि. अन्य कार्य |
| 2 | बिठौली | श्री ध्वनित मिश्रा, सहायक यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सीधी | श्री जे.पी. आर्या कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सीध | स्थानान्तरण |
| 3 | पखडा | श्री अंकित कुमार रस्तोगी, अनु. अधि. ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं सीधी | श्री सी.बी. अहिरवार अनुविभागीय अधिकारी महान परियोजना सीधी | स्थानान्तरण |
| 4 | खोचीपुर | श्री विवेकानन्द तिवारी, सहा.यंत्री लोवर सिहावल नहर सं. बुरहट | श्री कृष्ण कुमार पटेल, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी | शिकायत |
| विधानसभा 082- घोहनी (अजजा) | | | | |
| 1 | गजरी | डॉ. अमित आनन्द सोनी, पशु चि.सहा. शा. उप सं. पशु चि.सेवाएं | श्री देवेन्द्र दीक्षित बीडीओ जिला पंचायत सीधी | स्थानान्तरण |
| 2 | मड़वास | डॉ. डी.पी. तिवारी, सिविल सर्जन, उप संचा. पशु चिकित्सा सेवाएं | श्री ज्ञानेन्द्र पाण्डेय, मुख्य कार्य. अधि., जिला केन्द्रीय सह.बैंक मर्यादित | स्थानान्तरण |
| 3 | महखोर | श्री अशोक तिवारी, ए.डी.पी.सी. रमसा जिला शिक्षा अधिकारी सीधी | श्री मनोज कुमार मोर्य, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद मझोली | स्थानान्तरण |
| 4 | उमरिया | डॉ. अनिल सिंह, प्राध्यापक, संजय गाँधी स्मृति महा. जिला सीधी | डॉ. प्रमोद कुमार मालवीय, प्राध्यापक, संजय गाँधी स्मृति महा. जिला सीधी | स्थानान्तरण |

अतः प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित है।

कार्यालय, कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश

क्रमांक-2400-ई.एस.-निर्वा.-2019

होशंगाबाद, दिनांक 15 अप्रैल 2019

| क्र.सं. | अधिकारी का नाम | पद नाम | कार्यालय का नाम | सेवा/संवर्ग का नाम | क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------|--|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| एफएसटी | | | | | |
| 1 | श्री व्ही.के. नामदेव | उपयंत्री | कार्यपालन यंत्री तवा नहर संभाग. सिवनी मालवा | द्वितीय श्रेणी | संपूर्ण जिला |
| 2 | श्री राकेश शर्मा | उपयंत्री | कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा होशंगाबाद | --- | --- |
| 3 | श्री आनंद बिहारी कुलश्रेष्ठ | उपयंत्री | कार्यपालन यंत्री तवा नहर संभाग इटारसी | --- | --- |
| 4 | श्री गणेश लोखंडे | उपयंत्री | कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा होशंगाबाद | --- | --- |
| 5 | श्री अलकेश सोलंकी | उप यंत्री | कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा होशंगाबाद | --- | --- |
| 6 | श्री मनोज मोनिश | पीसीओ | जनपद पंचायत बाबई | --- | --- |
| 7 | श्री नरेन्द्र कुमार मीणा | बी.डी.ओ. | जनपद पंचायत पिपरिया | --- | --- |
| 8 | श्री प्रमोद मिश्रा | पी.सी.ओ. | जनपद पंचायत पिपरिया | --- | --- |
| 9 | श्री माखनलाल कन्नौजिया | पी.सी.ओ. | जनपद पंचायत पिपरिया | --- | --- |
| 10 | श्री रणधीर सिंह जूदेव | पी.सी.ओ. | जनपद पंचायत बनखेड़ी | --- | --- |
| स्थैतिक निगरानी दल | | | | | |
| 11 | श्री एन आर डेहरिया | उपयंत्री | कार्यपालन यंत्री लाईट मशीनरी एवं विद्युत यांत्रिकी होशंगाबाद | --- | --- |
| 12 | श्री एम राय | उप यंत्री | कार्यपालन यंत्री लाईट मशीनरी एवं विद्युत यांत्रिकी होशंगाबाद | --- | --- |
| 13 | श्री ए के द्विवेदी | सहा. वि. वि. अधि. | जनपद पंचायत पिपरिया | --- | --- |
| 14 | श्री रामबाबू रघुवंशी | उप अंके. | कार्यालय उपायुक्त सहकारिता होशंगाबाद | --- | --- |

| सेक्टर आफिसर | | | | | |
|--------------|------------------------|---------------------------|--|--------------|----|
| 15 | श्री रामकुमार नायक | सहायक प्रबंधक | म. प्र. ग्रामीण सडक विकास प्रा. होशंगाबाद | —" | —" |
| 16 | श्री हरिप्रसाद बिल्थरे | सहायक यंत्री | ग्रामीण यांत्रिकी सेवा पिपरिया जि.पंचा. होशंगाबाद | —" | —" |
| 17 | श्री बुदेल सिंह परते | उपायुक्त | सहकारिता विभाग होशंगाबाद | —" | —" |
| 18 | श्री संजय पाठक | परियोजना यंत्री | लोक निर्माण विभाग होशंगाबाद | —" | —" |
| 19 | श्री के एस सेंगर | अनुविभा. अधिकारी | अनुविभागीय अधिकारी वन सामान्य होशंगाबाद | —" | —" |
| 20 | श्री रामसेवक लौवंशी | प्राचार्य | पालिटेक्निक कालेज इटारसी | —" | —" |
| 21 | श्री शिवराज सिंह | सहायक प्रबंधक | म. प्र. ग्रामीण सडक विकास प्रा. होशंगाबाद | —" | —" |
| 22 | श्री संजय सिंघई | वरिष्ठ पशु चिकित्सा शल्यज | कृत्रिम पशु गर्भाधान केंद्र शोभापुर जिला होशंगाबाद | —" | —" |
| 23 | डा. संजय सराठे | वरिष्ठ पशु चिकित्सा शल्यज | पशु चिकित्सालय पचमढी जिला होशंगाबाद | —" | —" |
| 24 | श्री ए.एच. खान | वरिष्ठ पशु चिकित्सा शल्यज | पशु चिकित्सालय सेमरी हरचंद जिला होशंगाबाद | —" | —" |
| 25 | श्री ब्रजेश निवारिया | वरिष्ठ पशु चिकित्सा शल्यज | पशु चिकित्सालय होशंगाबाद | | |
| 26 | श्री टी एस डोडवे | कार्यपालन यंत्री | कार्यपालन यंत्री उर्जा विभाग होशंगाबाद | | |
| 27 | श्री लखनलाल वर्मा | सहायक संचालक | कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी होशंगाबाद | प्रथम श्रेणी | —" |

उपरोक्त तालिका में कॉलम नंबर 2 में दर्शित एफएसटी, स्थैतिक निगरानी दल एवं सेक्टर आफिसर के नियुक्त अधिकारियों को विशेष कार्यपालिक दंडाधिकारियों की शक्तियां प्रदत्त किये जाने का कष्ट करें।

कार्यालय, कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

क्रमांक-क्यू-9-निर्वा.सा.-ई.एस.-2019-2103

विदिशा, दिनांक 15 अप्रैल 2019

लोकसभा निर्वाचन-2019

विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने बाबत प्रस्ताव

जिले का नाम :- विदिशा

| क्र.सं. | अधिकारी का नाम | पद नाम | कार्यालय का नाम | विभाग / संभाग का नाम | संविधान प्रस्तावित शक्तियां प्रदत्त करने बाबत प्रस्तावित जिला |
|---------|--|--------------------------|---------------------------------------|----------------------|---|
| 1 | श्री राकेश शर्मा 9406536915 | उपयंत्री | जल संसाधन विदिशा | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 2 | श्री गौरव शर्मा 9165160570 | कर सहायक | जिला वाणिज्यकर अधिकारी | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 3 | श्री आर.एन. गुप्ता 9425735546 | मुख्य कार्यपालन अधिकारी | जनपद पंचायत बासोदा | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 4 | श्री एम.एल. मोटवानी 9823607491 | उपयंत्री | संजय सागर बाह नदी परियोजना बासोदा | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 5 | श्री नितिन भारती 9755705097 | सहायक यंत्री | शास. कृषि महाविद्यालय बासोदा | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 6 | श्री व्ही.बी. खरे 9424454987 | उपयंत्री | ग्रा.यां.से. संभाग विदिशा | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 7 | श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव | परियोजना यंत्री | पीआईयू विदिशा | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 8 | श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा 9479594454 | कार्यपालन यंत्री | सम्राट अशोक सागर संभाग-2 विदिशा | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 9 | श्री देवराज दांगी 9713904675 | ग्रा.उ.वि.अधिकारी | उद्यान विभाग कुरवाई | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 10 | श्री संजीव कुमार अहिरवार 8319963496 | प्रशिक्षण अधिकारी | आई.टी.आई. कॉलेज सिरोंज | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 11 | श्री राजेन्द्र शर्मा 9425770274 | उपयंत्री | ग्रा. यांत्रिकी सेवा सिरोंज | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 12 | श्री के. सिंह 9340164126 | सहा. परि. अधि. | आर.एम.एस.ए. (शिक्षा) विदिशा | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 13 | श्री अविनाश दियाकर 9425377278 | कार्यपालन यंत्री | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 14 | सुश्री श्रुति जैन 8817399766 | सहायक यंत्री | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सिरोंज | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 15 | श्री नीतेश कुमार उर्दके 9407121793 | सहायक प्राध्यापक | शासकीय पॉली. कॉलेज सिरोंज | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 16 | श्री शिशुपाल सिंह गोलिया 9826268340 | सहा. प्राध्यापक | एस.ए.टी.आई. डिग्री विदिशा | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 17 | श्री रविमोहन सक्सेना 9981769177 | सहायक प्राध्यापक | एस.ए.टी.आई. डिग्री विदिशा | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 18 | श्री आर.के. जैन 9406549747 | एस.डी.ओ. | जल संसाधन बासोदा | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 19 | श्री एस.पी. राठी 7899868806 | एस.डी.ओ. | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 20 | श्री सोनू गर्ग 9589662557 | जिला प्रबंधक | नागरिक आपूर्ति निगम | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 21 | श्री राकेश शर्मा | कार्यपालन यंत्री | जल संसाधन संभाग विदिशा | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 22 | श्री गोविन्दसिंह लोमर मो. 8989576341 | कनि. रेशम निरी. | रेशम विभाग विदिशा | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 23 | श्री योगेन्द्र सोनी मो. 9893151707 | सहकारी निरीक्षक | उपायुक्त सहकारिता | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 24 | श्री रामदयालसिंह राज मो. 9479389495 | सह.निरी. | उपायुक्त सहकारिता | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 25 | श्री सुरेश बरकडे मो. 7697033481 | दरिष्ठ सहकारी निरीक्षक | उपायुक्त सहकारिता | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 26 | श्री रघुवीर सिंह भीना मो. 9827311009 | पंचायत समन्वयक अधिकारी | जनपद विदिशा | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 27 | श्री आर.ए.एस. कुशवाह मो. 9827338081 | ग्रा.उ.वि. अधिकारी | बासोदा | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 28 | श्री श्रीराम कटियार मो. 9827598644 | ग्रा.उ.वि. अधिकारी | बासोदा | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 29 | श्री राजेश दांगी मो. 9752350472 | प्रशि. अधि. | आई.टी.आई. बासोदा | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 30 | श्री प्रताप सिंह दियाकर मो. 9826377060 | ग्रा.कृ.वि. अधिकारी | कुरवाई | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 31 | श्री अशोक कुमार राठौरे मो. 9826216603 | ग्रा.कृ.वि. अधिकारी | कुरवाई | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 32 | श्री शिवनाथ सिंह राजपूत मो. 9827213303 | ग्रा.कृ.वि. अधिकारी | कुरवाई | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 33 | श्री रमेश कुमार भदोलिया मो. 9753731912 | ग्रा.उ.वि. अधिकारी | सिरोंज | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 34 | श्री सुरेन्द्र कुमार गोयल मो. 9630616958 | कनि. रेशम निरी. | रेशम विभाग सिरोंज | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 35 | श्री महेश जिन्नोरिया मो. 9685724328 | पंचा. समन्वय अधिकारी | लटेरी | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 36 | श्री अरविन्द रघुवंशी मो. 9575578394 | स.नि. | उपायुक्त सहकारिता लटेरी | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 37 | श्री ए.के. पाटिल मो. 9826011305 | ग्रा.उद्यान विस्तार अधि. | उद्यान विभाग नटेरन | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 38 | श्री सुभाष श्रीवास्तव मो. 9977972909 | पंचा.समन्वय अधि. | जन.पंचा. नटेरन | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 39 | श्री अशोक कुमार शर्मा मो. 9425642029 | ग्रा.कृ.वि. अधिकारी | नटेरन | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 40 | श्री जे. पी. शर्मा मो. 9827259125 | ग्रा.कृ.वि. अधिकारी | नटेरन | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 41 | श्री सूर्यकांत द्विवेदी मो. 9406753198 | मत्स्य निरी. | विदिशा | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |

| अधिकारी का नाम | पद नाम | कार्यालय का नाम | सेवा / सेवा का नाम | समय जिसके लिए विभाग कार्यपालक पदाधिकारी की भूमिका प्रकृत की जाती प्रस्तावित |
|--|-------------------|---------------------------|--------------------|---|
| 42. श्री नरेन्द्र श्रीवास्तव | उपयंत्री | जिला भू-जल सर्वेक्षण इकाई | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 43. श्री दीपक कुमार दुबे मो. 9424472929 | सह. निरी. | उपायुक्त सहकारिता | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 44. श्री किशोर कुमार अहिरवाल मो. 9993821153 | सह.निरी. | उपायुक्त सहकारिता विदिशा | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 45. श्री नितिन कुमार गुप्ता मो. 9584243462 | प्रशि. अधि. | आई.टी.आई. बासौदा | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 46. श्री दीपक आचार्य मो. 9893748532 | प्रशि. अधि. | आई.टी.आई. बासौदा | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 47. श्री परमलसिंह रघुवंशी मो. 9755437378 | सह. निरी. | उपायुक्त सहकारिता बासौदा | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 48. श्री आशीष आर्य मो. 9753621739 | कृ.वि.अधि. | कृषि विभाग बासौदा | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 49. श्री इरतयाक अहमद मो. 9977557004 | ग्रा.कृ.वि.अधि. | कृषि विभाग कुरवाई | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 50. श्री गौरव कुमार मो. 7974817141 | उपयंत्री | नगर परिषद कुरवाई | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 51. श्री एन.पी. अहिरवार मो. 9827574722 | ग्रा.उ.वि.अधिकारी | कुरवाई | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 52. श्री गुलाल शाक्यवार मो. 9826376169 | ग्रा.क.वि.अधि. | कृषि विभाग कुरवाई | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 53. श्री आशीष कुमार वागदे मो. 9479540474 | प्रशिक्षण अधिकारी | आई.टी.आई. सिरोंज | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 54. श्री वीरेन्द्र कुमार द्विवेदी मो. 9424463248 | कनि. रेशम निरी. | रेशम विभाग सिरोंज | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 55. श्री महेश शर्मा मो. 9926700024 | पंचा.सम.अधि. | जन.पंचा. सिरोंज | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 56. श्री दीपक पाठक मो. 9981011505 | उपयंत्री | नगर परिषद लटेरी | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 57. श्री चमरसिंह सैयाम मो. 9098793048 | पंचा.सम.अधि. | जन.पंचा. लटेरी | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 58. श्री छोटकनलाल अहिरवार मो. 9981139031 | पंचा.सम.अधि. | जन.पंचा. नटेरन | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 59. श्री शंकरसिंह रघुवंशी मो. 9827544941 | ग्रा.कृ.वि.अधि. | कृषि विभाग नटेरन | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 60. श्री आर.के. चिदार मो. 9424416222 | ग्रा.कृ.वि.अधि. | कृषि विभाग नटेरन | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |
| 61. श्री माधोसिंह भदौरिया मो. 9617007671 | सह.निरी. | उपायुक्त सहकारिता नटेरन | द्वितीय | सम्पूर्ण जिला |

**कार्यालय, कलेक्टर, (निर्वाचन) जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश
कलेक्टोरेट संयुक्त भवन कक्ष क्रमांक - 28**

क्रमांक-1387-14.-निर्वाचन-2019

राजगढ़, दिनांक 15-04-2019

लोकसभा निर्वाचन 2019

विशेष कार्यपालन दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने बाबत अतिरिक्त प्रस्ताव

जिले का नाम - राजगढ़

| स. क्र. | अधिकारी का नाम | पद नाम | कार्यालय का नाम | सेवा / संवर्ग का नाम | किसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाती प्रस्तावित हैं |
|---------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | श्री शुभम राहंगडाले | सहायक यंत्री | ग्रामीण यांत्रिकी सेवा | श्रेणी-2 | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 2 | विनीता शर्मा | वि.ख. महिला सशक्तिकरण अधिकारी | महिला सशक्तिकरण विभाग | श्रेणी-3 | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 3 | श्री महेश सूर्यवंशी | पशु चिकित्सा अधिकारी | पशु चिकित्सा विभाग, नरसिंहगढ़ | श्रेणी-3 | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 4 | श्री कपिल मोहरे | सहायक परियोजना यंत्री | पीआईयू ब्यावरा | श्रेणी-2 | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 5 | श्री सुनील खरे | उप महाप्रबंधक | म.प्र.म.क्ष.वि.वि.क. ब्यावरा | श्रेणी-2 | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 6 | श्री महेन्द्र शुक्ला | बी.ए.सी. | बी.आर.सी. ब्यावरा | श्रेणी-3 | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 7 | श्री महेन्द्र सिंह नरवरिया | सहायक परियोजना यंत्री | पीआईयू ब्यावरा | श्रेणी-2 | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 8 | श्री ऋषिकेश आगरिया | सहायक यंत्री | जल संसाधन विभाग राजगढ़ | श्रेणी-2 | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 9 | श्री ए.के. गुर्जर | सहायक यंत्री | ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जीरापुर | श्रेणी-2 | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 10 | जयंती बाला | परियोजना अधिकारी | एकीकृत बाल विकास परियोजना पचोर | श्रेणी-3 | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 11 | श्री योगेश शर्मा | उपयंत्री | जल संसाधन विभाग नरसिंहगढ़ | श्रेणी-3 | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 12 | श्री राजेश भारतीय | प्राचार्य | हाई स्कूल बड़ोदिया तालाब | श्रेणी-2 | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 13 | श्री विकास राजोरिया | कार्यपालन यंत्री | जल संसाधन विभाग राजगढ़ | श्रेणी-1 | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 14 | श्री दिनेश चन्द्र शर्मा | प्रधानाध्यापक | मा.वि. जुना, ब्यावरा | श्रेणी-2 | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 15 | श्री रामनारायण लहरी | प्राचार्य | उ.मा.वि. भीलवाड़िया | श्रेणी-2 | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 16 | श्री बनवारी लाल शाक्यवार | प्रधानाध्यापक | मा.वि. राजगढ़ रोड ब्यावरा | श्रेणी-2 | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 17 | श्री जगदीश चन्द्र शाक्यवार | प्रधानाध्यापक | मा.वि. पीपलहेला | श्रेणी-2 | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 18 | श्री आर.के. मीना | सहायक संचालक | जिला शिक्षा कार्यालय, राजगढ़ | श्रेणी-2 | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 19 | श्री के.सी. सोनी | महा प्रबंधक | पीएमजीएसवाई राजगढ़ | श्रेणी-1 | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 20 | श्री के.एन. साहू | उपयंत्री | पी.एच.ई. मेकेनिकल राजगढ़ | श्रेणी-3 | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 21 | श्री मोहित चन्द्रवंशी | समग्र सामाजिक अधिकारी | जनपद पंचायत, जीरापुर | श्रेणी-3 | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 22 | श्री प्रेम सिंह मकवाना | प्रभारी प्राचार्य | शा.उ.मा.वि. धामन्दा | श्रेणी-3 | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 23 | श्री बदे आलम | प्राचार्य | उत्कृष्ट बालक उ.मा.वि. सारंगपुर | श्रेणी-2 | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 24 | श्री राधेश्याम विजयवर्गीय | प्रभारी प्राचार्य | शा.बा.उ.मा.वि. पचोर | श्रेणी-3 | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 25 | श्री नारायण सिंह जाटव | आर.ए.ई.ओ. | कृषि विभाग नरसिंहगढ़ | श्रेणी-3 | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 26 | श्री नितिन परिहार | प्राशि. अधिकारी | आई.टी.आई. राजगढ़ | श्रेणी-3 | सम्पूर्ण जिले के लिए |

| स. क्र. | अधिकारी का नाम | पद नाम | कार्यालय का नाम | सेवा / संवर्ग का नाम | क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित हैं |
|---------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | श्री संदीप सोनी | उपयंत्री | जल संसाधन विभाग राजगढ़ | श्रेणी-3 | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 28 | श्री संपतलाल बरदानिया | पंचायत समन्वयक अधिकारी | जनपद पंचायत जीरापुर | श्रेणी-3 | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 29 | श्री एल.एन. जाटव | ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी | कृषि विभाग जीरापुर | श्रेणी-3 | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 30 | श्री जगदीश प्रजापती | प्रभारी नायब तहसीलदार | छापीहेडा | श्रेणी-3 | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 31 | श्री अशोक कुमार | ए.व्ही.एफ.ओ. | पशु चिकित्सालय सारंगपुर | श्रेणी-3 | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 32 | श्री अभित परवाल, | उपयंत्री, | नगर पालिका राजगढ़ | श्रेणी-3 | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 33 | श्री आयुष सक्सेना | उपयंत्री | वि./यां. जल संसाधन जीरापुर | श्रेणी-3 | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 34 | श्री रामगोपाल शर्मा | राजस्व निरीक्षक | तलेन | श्रेणी-3 | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 35 | श्री डी0आर0 काटे | ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी | ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सारंगपुर | श्रेणी-3 | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 36 | श्री महेश शर्मा | स्थायीकर्मि | नगर परिषद सारंगपुर | श्रेणी-3 | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 37 | बनेसिंह भण्डारी | ए.व्ही.एफ.ओ. | ए.व्ही.एफ.ओ. सारंगपुर | श्रेणी-3 | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 38 | श्री पी.सी. भण्डारी | ए.व्ही.एफ.ओ. | ए.व्ही.एफ.ओ. सारंगपुर | श्रेणी-3 | सम्पूर्ण जिले के लिए |
| 39 | श्री एस.एन. चौहान | ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी | ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सारंगपुर | श्रेणी-3 | सम्पूर्ण जिले के लिए |